



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 618]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 19 नवम्बर 2018—कार्तिक 28, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 19 नवम्बर 2018

फा. क्रमांक 5113-2018-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, प्रदेश के बैतूल, रायसेन, एवं विदिशा जिलों से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रेषित संलग्न सूची के अनुसार विधान सभा निर्वाचन 2018 के लिये सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त अधिकारियों को विधान सभा निर्वाचन का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संतोष प्रसाद शुक्ल, अतिरिक्त सचिव.

विधि विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव के संबंध में जिलों से आये
पत्रों की सूची

| स. क्र. | जिले का नाम | पत्र क्र. व दिनांक |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1. | बैतूल | पत्र क्र—वि०स०नि०/2018/यातायात/2168, दिनांक 05.11.2018 |
| 2. | रायसेन | पत्र क्र/1573/23-भा.निर्वा./2018, दिनांक 06.11.2018 |
| 3. | विदिशा | पत्र क्र—क्यू—९/निर्वा.सा./संशोधित प्रस्ताव/2018/3746, दिनांक 06.11.2018 |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश

क्रमांक वि. स. नि. 2018-यातायात-2168

बैतूल, दिनांक 5 नवम्बर 2018

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल

विधानसभा आम निर्वाचन 2018

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने वाले संशोधित प्रस्ताव

जिला - बैतूल

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | लोकां संदर्भ | बेक्रेज जिसके लिये लिपेणु कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रत्यावित हैं |
|---------|---------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | श्री मनोज कुमार चौधरी | सहायक प्रबंधक | मंगागढ़ीपुर सडक विकास प्राधिकरण परियोगाना किंगा, इकाई बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 2 | श्री मोहनसिंह वर्मा | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गुलताई | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 3 | श्री धरमदास सोनारे | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गुलताई | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 4 | श्री सुखदेव प्रसाद मर्सिकेले | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी प्रगाठपहन | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 5 | श्री अशोक त्रिवेदी | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गुलताई | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 6 | श्री केवलसाम कौशिक | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गुलताई | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 7 | श्री रामदास सूर्यवंशी | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी प्रगाठपहन | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 8 | श्री एस.सी.साहू | उपयंत्री | कार्यपालन यंत्री छाला संसाधन उंगाग मुलताई | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 9 | श्री धरमसिंह रघुवंशी | व्याख्याता | पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 10 | श्री सतीश दिवाकर | व्याख्याता | शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 11 | श्री रजनीश कुमार ट्रिवेदी | सहायक अभियंता | कार्यपालन यंत्री (सिविल) 2 गणित 240 संग्रावाद सारणी | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 12 | श्री नितेश कुमार साहू | व्याख्याता | शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 13 | श्री सुनील कुमार डेहरिया | व्याख्याता | शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 14 | श्री तेजभान पांडेय | उप वनमंडलाधिकारी | कार्यालय वनमंडलाधिकारी (सा.) आमला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | दोवा संवर्ग | बैत्री जिले के लिये विदेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शुरुआती पदान्वयन की जाना प्रस्तावित है |
|---------|--------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 15 | श्री प.ए.स. मरकाम | सहायक यंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 16 | श्री सत्यप्रकाश सेनी, अधिकारी | सहायक मत्त्य | मत्स्योत्तोग बैतूल | प्रथम श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 17 | श्री वाय.पी. त्रिपाठी | जिला प्रबंधक | मध्यप्रदेश सिविल सप्लाय कार्पोरेशन, बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 18 | श्री आर.के.धुर्ये, | व्याख्याता | शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 19 | श्री आमुष कुमार लाङ | व्याख्याता | शास. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बैतूल | प्रथम श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 20 | श्री सतीश कुमार जोशी | कनिष्ठ अधियक्ता | कार्यपालन यंत्री (सिविल) 2 गणित 240 मेगावाट सारणी | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 21 | श्री धीरेन्द्ररामेह राधाना | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरि.कृषि विस्तार अधिकारी आगला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 22 | श्री कृष्णकुमार इकरिया | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरि.कृषि विस्तार अधिकारी आगला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 23 | श्री लुरेन्द्र कुमार स्थानसक्त | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरि.कृषि विस्तार अधिकारी आगला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 24 | श्री जीरेश विरान्ने | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरि.कृषि विस्तार अधिकारी आगला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 25 | श्री आर.आर.शात्र्य | उपयंत्री | जल संसाधन आगला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 26 | श्री गुरेश कुमार पवार | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरि.कृषि विस्तार अधिकारी गुलसार | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 27 | श्री नीरज लेहरिया | उपयंत्री | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मुलताई | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 28 | श्री रमेश कुमार वौलीकर | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरि.कृषि विस्तार अधिकारी आगला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 29 | श्री राहुल गलरिया | सहायक यंत्री | कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 30 | श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरि.कृषि विस्तार अधिकारी आगला | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 31 | श्री राजबेन्द्र मिश्रा | उप वनगडलाधिकारी | जल संसाधन उपसंभाग बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा संघर्ज | क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रकाशित है |
|---------|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 32 | श्री सुखदेव डोंगरे | सहायक प्राध्यापक | जयवंती हक्कार महाविद्यालय बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 33 | श्री आर.कौसाकेत | संचिव | कृषि उपज्ञ मंडी बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 34 | श्री ओगकार प्रसाद | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 35 | श्री शशनलाल पटेला | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 36 | श्री राजकुमार मंडायरे | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 37 | श्री उजाला रिह | उपर्यंत्री | कार्यपालन थक्की छाल संसाधन रामगांग बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 38 | श्री शशगोपाल रमा | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 39 | श्री सीआर. झरबडे | उपर्यंत्री | कार्यपालन थक्की छाल संसाधन रामगांग बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 40 | श्री कण्ठसिंह घोहान | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 41 | श्री सुमीत कुमार उईके | उपर्यंत्री | कार्यपालन थक्की छाल संसाधन रामगांग बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 42 | श्री चासुदेव बांसिवे | उपर्यंत्री | कार्यपालन थक्की छाल संसाधन रामगांग बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 43 | श्री एकनाथ निरापुरे | सहायक प्राध्यापक | जयवंती हक्कार शास. महाविद्यालय बैतूल | प्रथम श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 44 | श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी | सहा.प्राध्यापक | शास. महाविद्यालय शाहपुर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 45 | श्री ताराचंद जांगिड | पशु चिकित्सा सहायक संलग्न | पशु चिकित्सालय बोरी | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 46 | श्री नरेन्द्र कुमार परनामे | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी विधाली | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 47 | श्री सुनील भरवे | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी शाहपुर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 48 | श्री सुरजलाल भरवोले | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी शाहपुर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 49 | श्री रमेश कुमार धाकडे | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विद्यालय अधिकारी प्रौढ़ाडोपरी | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा संघर्ष | ब्रेत्र जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदल की जाना प्रस्तावित है |
|---------|----------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 50 | श्री विनायक राव पोडली | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी खोड़ाडोगरी | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 51 | श्री गानिकराव अडलक | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी खोड़ाडोगरी | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 52 | श्री हाकिमराई छिशोलिया | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी खिंचोली | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 53 | श्री रितेश पाण्डे | व्याख्याता, | शासकीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 54 | श्री सचिन सेयदे | वनक्षेत्रपाल | परिसेत्र भैसदेही (सामान्य) | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 55 | श्री रामदीन लारपेटे, | वैज्ञानिक | कृषि विज्ञान केन्द्र बैतूलबाजार, बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 56 | श्री हीराजी डोगरे, | संसाधक प्रबंधक, | जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 57 | श्री के.के. कालपाण्डे, | संहरणक यंत्री, | ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंग्राम गैंसदेही | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 58 | श्री अजय भार्गव, | संसाधक मूल्य अधिकारी | मत्स्यउद्योग बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 59 | श्री अनिल शर्मा | अनुविभागीय अधिकारी | लोक निर्माण विभाग, गैंसदेही | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 60 | श्री महेन्द्र कुमार गालवी, | व्याख्याता, | शास प्रौद्योगिकी बैतूल | प्रथम श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 61 | श्री आर.एस. लालुर | उपमंत्री | कार्यपालन यंत्री बैतूल संसाधन क्र. 2 बैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 62 | श्री महेन्द्र कुमार गौर | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी गैंसदेही | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 63 | श्री रावनराह उईके | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी शीगुर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 64 | श्री दिनेश सोनी | पी.री.ओ. | जगन्नाथ पंचायत आठनेर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 65 | श्री झुखलाल टेकाम | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी आठनेर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 66 | श्री धगराज मोहने | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी आठनेर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 67 | श्री परसराम धुर्व | ग्रा.कृषि वि.आ. | वरिकृषि विस्तार अधिकारी शीगुर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |

| क्रमांक | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | सेवा संघर्ष | क्षेत्र जिसके लिये विभिन्न कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तुवित है |
|---------|-------------------------|--------------|---------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 68 | श्री एस. गृहुदान | उपयनी | कार्यपालन चंडी चाल संसाधन क्र. 2 वैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 69 | श्री बी.आर. अष्ट्रवार | ग्राहक वि.अ. | वरि. उद्यान विस्तार अधिकारी भेंसोहड़ी | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 70 | श्री राठा लाजेश्वर सावे | उपयनी | कार्यपालन चंडी चाल संसाधन क्र. 2 वैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 71 | श्री आर.सी. मोरछले | उपयनी | कार्यपालन चंडी घासीण यान्त्रिकी रोवा. वैतूल | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |
| 72 | श्री विक्रमराजग. कुमार | ग्राहक वि.अ. | वरिकृष्ण विराज अधिकारी शीमपुर | द्वितीय श्रेणी | सम्पूर्ण जिले के लिये |

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

रायसेन, दिनांक 6 नवम्बर 2018

क्रमांक 1573-23-भा.निर्वा.-2018

| क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | संपर्क संख्या/फैक्टरी | संपर्क संख्या/फैक्टरी |
|------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | श्री जी.डी.परवडे | महापंचामी दल रायसेन | महापंचामी दल रायसेन | 9429123456 | 9429123456 |
| 2 | सुशी गोत्री श्रीनाथ | महापंचामी दल योगी | महापंचामी दल योगी | 9429123456 | 9429123456 |
| 3 | श्री राहित सरकार | महापंचामी योगी | महापंचामी योगी | 9429123456 | 9429123456 |
| 4 | श्री रमेश कुमार यादव | परिवर्गजन आधिकारी | परिवर्गजन आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 5 | श्री हीरावाल चंद्रमा यादव | यन्त्रजाल आधिकारी | यन्त्रजाल आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 6 | श्री संजय माधव | महापंचामी आधिकारी | महापंचामी आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 7 | श्री गुलाम फरमां | परिवर्गजन आधिकारी | परिवर्गजन आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 8 | श्री कृष्ण शर्मा | महायोगी | महायोगी | 9429123456 | 9429123456 |
| 9 | श्री आर्यन शर्मा | महायोगी | महायोगी | 9429123456 | 9429123456 |
| 10 | श्री आर्यन शर्मा | महापंचामी प्रबोधक | महापंचामी प्रबोधक | 9429123456 | 9429123456 |
| 11 | श्री विनोद दुर्दे | महाप्रबोधक | महाप्रबोधक | 9429123456 | 9429123456 |
| 12 | श्री के.एस. यादव | उपर्युक्ती | उपर्युक्ती | उपर्युक्ती | उपर्युक्ती |

| क्र. | अधिकारी का नाम | पद नाम | कार्यालय का नाम | संपर्क संख्या/फैक्टरी | संपर्क संख्या/फैक्टरी |
|------|-------------------------|------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13 | श्री एम.एन. भूत्तरात्मक | महापंचामी आधिकारी | महापंचामी आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 14 | श्री धैरेन्द्र राजपत्र | महापंचामी आधिकारी | महापंचामी आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 15 | श्री आख्यला अग्रवाल | महापंचामी आधिकारी | महापंचामी आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 16 | श्री उमर अली छारी | महायोगी भूमि रायसेन | महायोगी भूमि रायसेन | 9429123456 | 9429123456 |
| 17 | श्री उमर अली धुर्व | इ.इ.इ. | आर.इ.एस.यादव योगी | 9429123456 | 9429123456 |
| 18 | श्री जितेन्द्र तामर | परिवर्गजन आधिकारी | परिवर्गजन आधिकारी | 9429123456 | 9429123456 |
| 19 | श्री के.के. तिवारी | अ.वि.आ. | वारना आजोड़ चंद्रमा योगी | 9429123456 | 9429123456 |
| 20 | श्री प्रेम शंकर सोलकी | सहायक राजपत्र निरीक्षक | सहायक राजपत्र निरीक्षक | 9429123456 | 9429123456 |
| 20 | श्री लुमाशकर शर्मा | गण्डी निरीक्षक | गण्डी निरीक्षक | 9429123456 | 9429123456 |

**कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निवाचन अधिकारी, जिला— विदिशा
नियमित निवाचन 2018 सेक्टर ऑफिसर एवं एक्सटी / एसएसटी को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त हेतु प्रस्ताव**

| स.क्र. | अधिकारी का नाम | पदनाम | कार्यालय का नाम | सेवा/संवर्ग का नाम | क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालन दण्डाधिकारियों की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं। |
|--------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री मोहम्मद शाफीक खान, 9425640536 | प्राचार्य | शास.उत्कृष्ट उ.मा.वि.सिरोज | द्वितीय | संपूर्ण जिले के लिए |
| 2 | अब्दुल गाजिद खान, 9926575344 | व्याख्याता | शास.कन्या उ.मा.वि.सिरोज | द्वितीय | संपूर्ण जिले के लिए |
| 3 | श्री कंताश अहियार, 9892052131 | प्रधानाव्यापक | शास.कन्या मा.शाला सीहोरा | द्वितीय | संपूर्ण जिले के लिए |
| 4 | श्री सत्येन्द्र सिंह, 9425722709 | सहायक प्राचार्य | शास.नवीन महाविद्यालय विदिशा | द्वितीय | संपूर्ण जिले के लिए |